



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 वैशाख 1936 (श०)
(सं० पटना 387) पटना, शुक्रवार, 25 अप्रील 2014

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

22 अप्रील 2014

सं० बी1-3-62/2014- 41—लोक सभा आम निर्वाचन, 2014 के अवसर पर निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के आलोक में 8—सुपौल, 9—अररिया, 10—किशनगंज, 11—कटिहार, 12—पुर्णिया, 26—भागलपुर एवं 27—बांका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप 7 'क' सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

हुसैन यूसुफ रिजवी,

संयुक्त सचिव।

प्ररूप 7क

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

08-सुपौल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5
(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी				
1	अमन कुमार समाजसेवी	ग्राम-दिघिया, पो०-दिघिया, थाना-निर्मली, जिला-सुपौल	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2	कामेश्वर चौपाल	न्यू महावीर कॉलोनी, हसनपुरा रोड, पो०-बेउर, पटना-800002	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3	दिलेश्वर कामैत	ग्राम-लक्ष्मीनिर्यौ, पो०-महोलिया, भाया-जदिया, थाना-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल	जनता दल (यूनाइटेड)	तीर
4	रंजीत रंजन	कोर्ट स्टेशन, रंजन निकेतन, पूर्णियां	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)				
5	जय नारायण यादव	ग्राम-शिवनगर पश्चिम टोला, पो०-लतौना, प्रखंड-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	तीन सितारों वाला झंडा
6	देव नारायण यादव	ग्राम-लोहिया नगर, वार्ड नं०-09, पो०-सुपौल, जिला-सुपौल	बहुजन मुक्ति पार्टी	चारपाई
7	परमेश्वर झा	ग्राम+पो०-गोट बरदाहा, थाना-घैलाड़, जिला-मधेपुरा	आम आदमी पार्टी	झाडू
8	मोहम्मद अमानुल्लाह	ग्राम-दीनबंधी, पो०-संस्कृत निर्मली, थाना-बलुआ बाजार, जिला-सुपौल	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	सीढ़ी
9	शकलदेव मंडल	ग्राम+पो०-नरपतगंज, जिला-अररिया (बिहार)	समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय)	बैटरी टार्च
10	सुरेश कुमार आजाद	ग्राम-खरैल परसा पुनर्वास, पो०-पिपरा खुर्द, थाना एवं जिला-सुपौल	जय हिन्द पार्टी	कैंची
(iii) अन्य अभ्यर्थी				
11	बिनोद कुमार साहु	ग्राम-बायसी, पो०-डुमरी, प्रखंड-राघोपुर, जिला-सुपौल	निर्दलीय	अलमारी
12	रामदेव शर्मा	ग्राम-मुसलीम टोला दौलतपुर, पो०-दौलतपुर, थाना-राघोपुर, जिला-सुपौल	निर्दलीय	बुश

स्थान : सुपौल
तारीख : 09.04.2014

निर्वाची पदाधिकारी,
08-सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-सह-जिलाधिकारी, सुपौल (बिहार)।

FORM 7A**[See rule 10 (1)]****List of Contesting Candidates****Election to the House of the People/Legislative Assembly from the 08-Supaul
Parliamentary Constituency**

Sl. No.	Name of candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties				
1	Aman Kumar Samajsevi	Vill-Dighiya, Po-Dighiya, Ps-Nirmali, Distt-Supaul	Bahujan Samaj Party	Elephant
2	Kameshwar Chaupal	New Mahavir Colony, Hasanpura Road, Po-Bour, Patna-800002	Bharatiya Janata Party	Lotus
3	Dileshwar Kamait	Vill-Laxminiya, Po-Maholiya, Via-Jadia, Ps-Triveniganj, Distt-Supaul	Janata Dal (United)	Arrow
4	Ranjeet Ranjan	Court Station, Ranjan Niketan, Purnia	Indian National Congress	Hand
(ii) Candidates of registered Political Parties (other than recognised National and State Political Parties)				
5	Jay Narayan Yadav	Vill-Shivnagar Paschim Tola, Po-Latauna, Block-Triveniganj, Distt-Supaul	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)	Flag with Three Stars
6	Deo Narayan Yadav	Vill-Lohiya Nagar, Ward No-09, Po-Supaul, Distt-Supaul	Bahujan Mukti Party	Cot
7	Parmeshwar Jha	Vill+Po-Goth Bardaha, Ps-Ghailarh, Distt-Madhepura	Aam Aadmi Party	Broom
8	Mohammad Amanullah	Vill-Dinbandhi, Po-Sanskrit Nirmali, Ps-Balua Bazar, Distt-Supaul	Indian Union Muslim League	Ladder
9	Shakaldev Mandal	Vill+Po-Narpatgnaj, Distt-Araria (Bihar)	Samajwadi Janata Party (Rashtriya)	Battery Torch
10	Suresh Kumar Azad	Vill-Kharail Parsa Punarwash, PO-Pipra Khurd, Ps+Distt-Supaul	Jay Hind party	Scissors
(iii) Other Candidates				
11	Binod Kumar Sahu	Vill-Baysi, Po-Dumri, Block-Raghopur, Distt-Supaul	Independent	Almirah
12	Ramdev Sharma	Vill-Muslim Tola Daulatpur, Po-Daulatpur, Ps-Raghopur, Distt-Supaul	Independent	Brush

Place : Supaul
Date : 09.04.2014

Returning Officer
08-Supaul Parliamentary Constituency-
cum-District Magistrate, Supaul (Bihar).

प्रारूप 7 'क'

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

09-अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन 2014

(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5
1	अब्दुल रहमान	गृह सं०-141, ग्राम-टप्पू टोला, डाकघर-पिपरा, थाना-जोगबनी, प्रखंड व अनुमंडल-फारबिसगंज, जिला-अररिया (बिहार)	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
2	तसलीम उद्दीन	मीर नगर, वार्ड नं०-28, अररिया, पो०+थाना+जिला-अररिया	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
3	प्रदीप कुमार सिंह	ओम नगर, वार्ड नं०-08, पो०+थाना+जिला-अररिया	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4	विजय कुमार मंडल	ग्राम-बटराहा मंडल टोला, पो०-बटराहा, जिला-अररिया	जनता दल (यूनाइटेड)	तीर

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)।

5	मो० असलम बेग	बीरनगर गोठ, पो०-बीरनगर, भाया चौपड़ा रामनगर, थाना-भरगामा, जिला-अररिया	जनता दल राष्ट्रवादी	बल्ला
6	चन्द्र भूषण	समय वार्ता चौक, स्टेशन रोड, वार्ड नं०-17, पो०+जिला-अररिया, पिन-854311 (बिहार)	आम आदमी पार्टी	झाड़ू
7	राजेश कुमार	ग्र०+पो०-फरकिया, थाना-बौंसी, जिला-अररिया (बिहार)	भारत विकास मोर्चा	फलों से युक्त टोकरी
8	रामानन्द ऋषिदेव	सा०-टीलामोहन तारटोला, पो०-रहिमपुर टीलामोहनपुर, थाना-सिमराहा, प्रखंड-फारबिसगंज, जिला-अररिया	लोक दल	ब्लैक बोर्ड
9	विद्यानन्द पासवान	वार्ड नं०-15, फारबिसगंज पो०+थाना+अंचल+अनुमंडल-फारबिसगंज, जिला-अररिया	बहुजन मुक्ति पार्टी	चारपाई
10	संजय कुमार ऋषिदेव	गांव-राघोपुर, दर्शन टोला, पो०-पचीरा, थाना-रानीगंज, जिला-अररिया	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट- लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	तीन सितारों वाला झंडा
11	सर वात जाहरे अंसारी	बैजनाथपुर, पो०-ढोलबज्जा, वार्ड नं०-08, फारबिसगंज, अररिया (बिहार)	समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय)	बैटरी टॉर्च

(iii) अन्य अभ्यर्थी।

12	अलमदार हुसैन	ग्रा०-सीपाहपुर, पो०-भीखनपुर, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर	निर्दलीय	अलमारी
13	पंकज किशोर मंडल	सा०-भटियाही, पो०-बथनाहा, जिला-अररिया, बिहार	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा

स्थान : अररिया
तारीख : 09.04.2014

रिटर्निंग ऑफिसर ,
09-अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

FORM 7 A.

[See rule 10 (1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the People from the 09-Araria Parliamentary Constituency

(i) Candidates of recognized National and State Political Parties

Sl. No.	Name of candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5
1	ABDUL RAHMAN	HOUSE NO-141, VILL-TAPPU TOLA, PO-PIPRA, THANA-JOGBANI, BLOCK+ANUMANDAL-FORBESGANJ, DIST-ARARIA (BIHAR)	Bahujan Samaj Party	Elephant
2	TASLEEM UDDIN	MIR NAGAR, WARD NO-28, ARARIA, PO+THANA+DIST-ARARIA	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
3	PRADEEP KUMAR SINGH	OM NAGAR, WARD NO-08, PO+THANA+DIST-ARARIA	Bharatiya Janata Party	Lotus
4	VIJAY KUMAR MANDAL	VILL-BATRAHA MANDAL TOLA, PO-BATRAHA, DIST-ARARIA	Janata Dal (United)	Arrow

(ii) Candidates of registered political parties (other than recognized National and State Political Parties).

5	MD. ASLAM BEG	BIRNAGAR GOTH, PO-BIRNAGAR VIA-CHOUPRA RAMNAGAR, PS-BHARGAMA, DIST-ARARIA	Janta Dal Rashtravadi	Bat
6	CHANDRA BHUSHAN	SAMAY WARTA CHOWK, STATION ROAD, WARD NO-17. PO+DIST-ARARIA	Aam Aadmi Party	Broom
7	RAJESH KUMAR	VILL+PO-FARKIYA, THANA-BOUNSI, DIST-ARARIA (BIHAR)	Bharat Vikas Morcha	Basket Containing Fruits
8	RAMANAND RISHIDEO	VILL-THILAMOHAN TAR TOLA, PO-RAHIMPUR THILAMOHANPUR, PS-SIMRAHA, BLOCK-FORBESGANJ, DIST- ARARIA	Lok Dal	Black Board
9	BIDAYANAND PASWAN	WARD NO-15, FORBESGANJ PO+THANA+ANCHAL+ANUMANDAL-FORBESGANJ, DIST-ARARIA	Bahujan Mukti Party	Cot

10	SANJAY KUMAR RISHIDEV	VILL-RAGHOPUR DARSHAN TOLA, PO-PACHEERA, THANA-RANIGANJ, DIST-ARARIA	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)	Flag With Three Stars
11	SAR WAT JAHRE ANSARI	BAIJNATHPUR , PO-DHOLBAJJA, WARD NO-08, FORBESGANJ, ARARIA (BIHAR)	Samajwadi Janata Party (Rashtriya)	Battery Torch

(iii) Other candidates.

12	ALAMDAR HUSSAIN	VILL-SIPAHNUR, PO-BHEEKHANPUR, THANA-AHIYAPUR, DIST-MUZAFFARPUR	Independent	Almirah
13	PANKAJ KISHOR MANDAL	SAKIN-BHATIAHI, PO-BATHNAHA, DIST-ARARIA, BIHAR	Independent	Auto - Rickshaw

Place-Araria
Date-09.04.2014

Returning Officer,
09-Araria Parliamentary Constituency.

प्ररूप 7क

[नियम 10(1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

10-किशनगंज निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवर्तित प्रतीक
1	2	3	4	5
i. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी				
01.	अखतरुल ईमान	पिता-अ. रशीद, सा. मौधो, नियामतपुर, पो., मौधो, थाना कोचाधामन, जिला किशनगंज	जनता दल (यूनाइटेड)	तीर
02.	डा. दिलीप कुमार जायसवाल	पिता- आनन्दी प्रसाद चौधरी, दिलावरगंज, एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज, किशनगंज, पो. किशनगंज, थाना व जिला किशनगंज पिन-855107	भारतीय जनता पार्टी	कमल
03.	मो. नौसाद	पिता- सुल्तान, ग्राम-किशनपुर, पो. बेलवा, थाना सदर मुफरिसल, जिला पूर्णियाँ, बिहार, पिन-854337	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
04.	मोहम्मद असरारुल हक	पिता- मुन्शी उमेद अली, ग्राम ताराबाड़ी, पो. ताराबाड़ी चौक, थाना गर्भनडांगा, जिला किशनगंज	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
ii. रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)				
05.	अलीमुद्दीन अंसारी	पिता- अब्दुल हफीज, हॉऊसिंग कॉलनी, पूर्णियाँ, पो.+जिला पूर्णियाँ, पिन- 854301	आम आदमी पार्टी	झाड़ू

06.	मो. गुलाब सिद्दिकी	पिता- मो. इसुप, नया लाईन, एन.एफ. कॉलोनी 10 नं., नया लाईन स्टॉफ लाईन, मिरीक नक्सलबाड़ी, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्यूलर)	एयरकंडीशनर
07.	मनोवर आलम	पिता- मोजीबुर रहमान, ग्राम हल्दीखोड़ा, पो. हल्दीखोड़ा, जिला किशनगंज पिन-855115	जनता दल राष्ट्रवादी	बल्ला
08.	मोहम्मद वसीकुर रहमान	पिता-खसीउर रहमान, सरंडा, पो.+थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज-855101	इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	सीढ़ी
iii. अन्य अभ्यर्थी				
09.	चितरंजन सिंह	पिता-योगेन्द्र सिंह, ग्राम बन्दरबाड़ी, पो. गलगलिया, थाना गलगलिया, जिला किशनगंज पिन-855106	निर्दलीय	अलमारी
10.	छोटे लाल महतो	पिता-सीयाराम महतो, चुडीपट्टी, नोनीयाबस्ती, वार्ड नं. 4, पो. +थाना+जिला किशनगंज - 855108	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर

स्थान : किशनगंज
तारीख : 09.04.2014

रिटर्निंग ऑफिसर,
10-किशनगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र।

FORM 7A

[See rule 10(1)]

List of Contesting Candidates

Election to the Lok Sabha General Election for 10-Kishanganj Parliamentary Constituency

Sl. No.	Name of candidate	Address of candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5
i. Candidate of recognized National and State Political Parties.				
01.	AKHTARUL IMAN	S/o - A. Rashid, At. Maudho, Niyamatpur, P.O. Maudho, P.S. Kochadhaman, Dist. Kishanganj	Janata Dal (United)	ARROW
02.	DR. DILIP KUMAR JAISWAL	S/o- Anandi Prasad Chaudhary, Dilawarganj, MGM Medical College, Kishanganj, P.O. Kishanganj, P.S.+Dist. Kishanganj PIN-855 107	Bharatiya Janata Party	LOTUS
03.	MD. NAUSHAD	S/o- Sultan, At. Kishanpur, P.O. Belwa, Thana Sadar Mufassil, Dist. Purnea, Bihar, PIN-854 337	Bahujan Samaj Party	ELEPHANT

04.	MOHAMMAD ASRARUL HAQUE	S/o- Munshi Umed Ali, Vill.-Tarabari, P.O.- Tarabari Chowk, P.S.- Garvandanga, Dist. Kishanganj	Indian National Congress	HAND
ii. Candidate of recognized National and State Political Parties (other than recognized National and State Political Parties).				
05.	ALIMUDDIN ANSARI	S/o- Abdul Hafiz, Housing Colony, Purnea, P.O.+Dist. Purnea PIN-854301	Aam Aadmi Party	BROOM
06.	MD. GULAB SIDDIKI	S/o- Md. Isup, Naya Lilne, NF Colony 10 No. Naya Line Staff Line, Mirik Naxalbari, Dist. Darjeeling, West Bengal.	Loktantrik Janata Party (Secular)	AIR CONDITIONER
07.	MANUWER ALAM	S/o- Mojibur Rahman, Vill. – Haldikhoda, P.O Haldikhoda, Dist. Kishanganj, PIN 855 115	Janta Dal Rashtravadi	BAT
08.	MOHAMMAD WASIQR RAHMAN	S/o- Khasiur Rahman, Saranda, PO+Thana Bahadurganj Dist. Kishanganj-855101	Indian Union Muslim League	LADDER
iii. Other candidates.				
09.	CHITRANJAN SINGH	S/o- Yogendra Singh, Vill. Bandarbari, P.O. Galgalia, P.S. Galgalia, Dist. Kishanganj, PIN-855 106	Independent	ALMIRAH
10.	CHHOTE LAL MAHTO	S/o- Siyaram Mahto, Churipatti, Nuniabasti, Ward No.4, P.O+P.S.+Dist. Kishanganj-855108	Independent	GAS CYLINDER

Place : KISHANGANJ

Date : 09.04.2014

**Returning Officer,
10-Kishanganj Parliamentary
Constituency.**

प्रारूप 7 क

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

11 - कटिहार निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5
(1) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी				
1.	तारिक अनवर	जी०-21, निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली-110013	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी
2.	निखिल कुमार चौधरी	ग्राम-विनोदपुर, पो०-दिघरी, थाना-कोढ़ा, जिला-कटिहार	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3.	डॉ० राम प्रकाश महतो	नया टोला, वार्ड सं०-34, कटिहार	जनता दल (यूनाइटेड)	तीर
4.	शिवेन्द्र कुमार	सा०-विधापुरी मुहल्ला, पो०+थाना+जिला-मधेपुरा	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
(2) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)				
5.	अब्दुर रहमान	ग्राम-कुर्सेल, पो०-मनसाही, जिला-कटिहार	भारतीय मोमिन फ्रंट	पतंग
6.	मो० इकबाल अहमद	ग्राम इटवा, पो०-हसनगंज, थाना डंडखोरा जिला कटिहार	समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय)	बैटरी टॉर्च
7.	फूलमनी हेम्ब्रम	ग्राम-नीमा सूरी टोला, पो०-नीमा, थाना-मनिहारी, जिला-कटिहार (बिहार)	भारत विकास मोर्चा	फलों से युक्त टोकरी
8.	बालेश्वर मरांडी	ग्रा०-चित्रगुप्त नगर, पो०+थाना+जि०-अररिया	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	तीर-कमान
9.	बिभाकर झा उर्फ भिक्टर झा	मोहल्ला-कॉलोनी नं०-1 दुर्गास्थान, पो०-प्रधान डाकघर, कटिहार, जिला-कटिहार (बिहार)	आम आदमी पार्टी	झाड़ू
10.	महबूब आलम	ग्राम+पो०-शिवानंदपुर, जिला-कटिहार	कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	तीन सितारों वाला झंडा
11.	महम्मद हमीद मुबारक	ग्राम-मनिहारी पश्चिम टोला, पो० एवं थाना-मनिहारी, जिला-कटिहार।	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण
12.	महेश मंडल	नया टोला, वार्ड नं०-35, पो० व थाना व जिला-कटिहार।	बहुजन मुक्ति पार्टी	चारपाई
13.	सत्यनारायण भगत	न्यू आफिसर्स कालोनी, बरमसिया, मिरचाईवाड़ी, पो० एवं जिला-कटिहार	प्राउटिस्ट सर्व समाज	डबलरोटी

14.	सुरेश राय	ग्राम-बेहरो, पो०-चौकीहरिपुर, थाना-कदवा, जिला-कटिहार (बिहार)	राष्ट्रवादी जनता पार्टी	ऑटो-रिक्शा
(3) अन्य अभ्यर्थी				
15.	अशोक कुमार	एस 219/79, अशोक विन्दुसार कैम्प, इस्ट ऑफ कैलाश, सी-ब्लॉक, नई दिल्ली-65	निर्दलीय	छत का पंखा
16.	अशोक कु० भगत	मुहल्ला-सलामतनगर (लडकनियाँ टोला), पो० एवं जिला-कटिहार	निर्दलीय	एअरकंडीशनर
17.	कन्हार्ई मंडल	ग्राम-नवरसिया, पो०-चौकचामा, जिला-कटिहार।	निर्दलीय	अलमारी
18.	मो० तारिक अनवर	ग्राम-मेतरा, पो०-विसनपुर, जिला-पुर्णियाँ	निर्दलीय	गुब्बारा
19.	नलिनि मंडल	ग्राम-दुर्गापुर गणेशटोला, पो०-दुर्गापुर, थाना-अमदाबाद, जिला-कटिहार (बिहार)	निर्दलीय	फूलगोभी
20.	राज कुमार मंडल	ग्राम-गौरीपुर, पोस्ट गौरीपुर, भाया-महादेवपुर, थाना प्राणपुर, जिला कटिहार।	निर्दलीय	कैंची
21.	संजय सिंह	ग्राम अनार कली पो० बांसगढ़ा जिला-कटिहार	निर्दलीय	बल्ला

स्थान :- कटिहार
तारीख :- 09.04.2014

रिटर्निंग ऑफिसर,
11-कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

FORM 7 A

[See rule 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the People from the 11-KATIHAR Constituency

Sl. No.	Name of candidate	Address of candidates	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5
(i) Candidate of recognised National and State Political Parties				
1.	Tariq Anwar	G-21, Nizamuddin West, New Delhi-110013	Nationalist Congress Party	Clock
2.	Nikhil Kumar Choudhary	Vill-Vinodpur, P.O-Dighari, P.S-Korha, Dist-Katihar	Bharatiya Janata Party	Lotus
3.	Dr. Ram Prakash Mahto	Naya Tola, Ward No-34, Katihar	Janata Dal (United)	Arrow

4.	Shivendra Kumar	At-Vidhapuri Muhalla, P.O+P.S+Dist-Madhepura	Bahujan Samaj Party	Elephant
(ii) Candidates of registered Political Parties (Other than recognised National and Political Parties.)				
5.	Abdur Rahman	Vill-Kursel, P.O-Mansahi, Dist-Katihar	Bharatiya Momin Front	Kite
6.	Md. Iqbal Ahmad	Vill-Etwa, P.O-Hasanganj, P.S- Dandkhora, Dist-Katihar	Samajwadi Janata Party (Rashtriya)	Battery Torch
7.	Fulmani Hembram	Vill-Nima Suri Tola, P.O-Nima, P.S-Manihari, Dist-Katihar (Bihar)	Bharat Vikas Morcha	Basket Containing Fruits
8.	Baleshwar Marandi	Vill-Chitragupta Nagar, P.O+P.S+Dist-Araria	Jharkhand Mukti Morcha	Bow & Arrow
9.	Bibhaker Jha @ Victor Jha	Mohalla - Colony No.-1 Durgasthan, P.O-Head Post Office , Katihar, Dist-Katihar (Bihar)	Aam Adami Party	Broom
10.	Mahbub Alam	Vill+P.O-Shivanandapur, Dist-Katihar	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)	Flag with Three Stars
11.	Mahammad Hamid Mobarak	Vill-Manihari Paschim Tola, P.O+P.S-Manihari, Dist-Katihar	All India Trinamool Congress	Flowers & Grass
12.	Mahesh Mandal	Naya Tola, Ward No.-35, P.O+P.S+Dist-Katihar	Bahujan Mukti Party	Cot
13.	Satyanarayan Bhagat	New Officer's Colony, Barmasia, Mirchaibari, P.O & Dist-Katihar	Proutist Sarva Samaj	Bread
14.	Suresh Ray	Vill-Behro, PO-Chauki Haripur, P.S-Kadwa, Dist-Katihar (Bihar)	Rashtravadi Janata Party	Auto-Rickshaw

(iii) Other Candidate				
15.	Ashok Kumar	S-219/79, Ashok Vindusaar Camp, East of Kailash, C-Block, New Delhi-65	Independent	Ceiling Fan
16.	Ashok Ku Bhagat	Mohalla-Salamat Nagar (Ladkania Tola) P.O & Dist- Katihar	Independent	Air Conditioner
17.	Kanhai Mandal	Vill-Navrasia, P.O- Chowkchama, Dist- Katihar	Independent	Almirah
18.	Md. Tariq Anwar	Vill-Metra, PO- Visanpur, Dist- Purnea	Independent	Balloon
19.	Nalini Mandal	Vill-Durgapur Ganesh Tola, P.O- Durgapur, P.S-Amdabad, Dist- Katihar (Bihar)	Independent	Cauliflower
20.	Raj Kumar Mandal	Vill-Gauripur, P.O- Gauripur, Via-Mahadevpur, P.S-Pranpur, Dist- Katihar	Independent	Scissors
21.	Sanjay Singh	Vill-Anar Kali, P.O- Baansgadha, Dist- Katihar	Independent	Bat

Place : Katihar.

Date : 09-04-2014

Returning Officer ,

11-Katihar Parliamentary Constituency .

प्ररूप 7 क

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

12 - पूर्णियाँ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आवंटित प्रतीक
1	2	3	4	5
(1) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी				
1	अमरनाथ तिवारी	ग्राम - बासुदेवपुर पो०- बड़हरा कोठी थाना-बड़हरा कोठी जिला - पूर्णियाँ	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ
2	उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह	मौलबाबू हाता, मधुबनी पोस्ट-पूर्णियाँ चौक जिला - पूर्णियाँ	भारतीय जनता पार्टी	कमल

3	राजकुमार उरांव	ग्राम –जबनपुर पो0 – मदारधाट थाना – कसबा जिला – पूर्णियाँ	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
4	संतोष कुमार	ग्राम –कोचेली पो0 – बरसौनी थाना– डगरूआ जिला – पूर्णियाँ	जनता दल (यूनाइटेड)	तीर
(2) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)				
5	अनिल कुमार महतो	ग्राम+पो0–संझाधाट थाना–मीरगंज जिला–पूर्णियाँ	जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)	आरी
6	पंकज कुमार सिंह	भाकपा माले, जिला कार्यालय अमला टोला थाना–के0 हाट बड़ी ठाकुरबाड़ी रोड मधुबनी, थाना–के0 हाट जिला – पूर्णियाँ 854321	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्सिसिस्ट– लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	तीन सितारों वाला झंडा
7	प्रमोद नारायण पोद्दार	एम0–105, कंकडबाग डाक्टर कालोनी, लोहिया नगर, गौरी शंकर कम्प्लेक्स, पो0–लोहिया नगर जिला–पटना	भारतीय जनतांत्रिक जनता दल	पतंग
8	फागु मरन्डी	ग्राम+पो0–पौआखाली थाना–पौआखाली जिला – किशनगंज पिन – 855108	झारखंड दिशोम पार्टी	कप और प्लेट
9	मंसूर आलम	ग्रा0 – दलन हाजीपुर पो0 – कटिहार कोर्ट जिला – कटिहार	समाजवादी पार्टी	साइकिल
10	मोहम्मद शमशेर आलम	ग्राम–भमेठ पो0–श्रीपुर थाना–भवानीपुर जिला–पूर्णियाँ	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	तीर–कमान
11	मु0 शहीद अख्तर	आशियाना कालोनी खजौंची हाट पो0– भट्टा बाजार थाना – के0 हाट, जिला– पूर्णियाँ	बहुजन मुक्ति पार्टी	चारपाई
12	सय्यद शाह इकबाल आलम	मं0 स0–17 ग्राम–इटहरी पो0–कुआरी गोला थाना–धमदाहा जिला–पूर्णियाँ	भारतीय एकता मंच पार्टी	बैटरी टॉर्च
13	सुदीप राय	सिपाही टोला, पूर्णियाँ पो0–पूर्णियाँ(मधुबनी) थाना–के0 हाट जिला– पूर्णियाँ	आम आदमी पार्टी	झाड़ू

3) अन्य अभ्यर्थी				
14	मो० अख्तर अली	मु०—मुजफ्फर अहमद नगर पो०— पूर्णियाँ थाना—खजौंची हाट(सहायक) जिला— पूर्णियाँ पिन कोड—854301	निर्दलीय	लिफाफा
15	कुंज बिहारी पासवान	ग्राम—चन्द्रही पो०—चन्द्रही थाना—धमदाहा जिला—पूर्णियाँ	निर्दलीय	गुब्बारा
16	नववेश पाठक	ग्राम— भटोत्तर पो०— भटोत्तर जिला — पूर्णियाँ	निर्दलीय	अलमारी
17	संजय सिंह	रानी बाड़ी दमका पो० मोहन कुंडा थाना—सदर जिला—पूर्णियाँ पिन कोड —854324	निर्दलीय	केक

स्थान — पूर्णियाँ
दिनांक — 09-04-2014

निर्वाची पदाधिकारी,
12—पूर्णियाँ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

FROM 7-A

[See Rule 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the People from the **12-Purnea Parliamentary Constituency**

Sl. No.	Name of candidate	Address of the candidate	Party Affiliation	Symbol Alloted
1	2	3	4	5
(1) Candidate of recognized National and State Political Parties.				
1	Amarnath Tiwari	At.-Basudevpur, P.O.-Barahara Kothi, P.S.-Barahara Kothi, Dist.-Purnea	Indian National Congress	Hand
2	Uday Singh alias Pappu Singh	Molbaabu Haata, Madhubani, P.O- Purnea Chowk, Dist.-Purnea	Bharatiya Janata Party	Lotus
3	Raj Kumar Oraon	At.-Jawanpur, P.O.-Madarghaat, P.S.-Kasba, Dist.-Purnea	Bahujan Samaj Party	Elephant
4	Santosh Kumar	At. - Kochaili, P.O.-Barsauni, P.S.-Dagarua, Dist.-Purnea	Janata Dal (United)	Arrow

(2) Candidates of registered political parties (other than recognized National and State Political Parties).

5	Anil Kumar Mahto	At.+P.O.- Sanjhaghaat, P.S.- Mirganj, Dist.-Purnea	Janvadi Party (Socialist)	Saw
6	Pankaj Kumar Singh	Bhakpa Male, District Office, Aamla Tola, Badi Thakurbari, Madhubani, Purnea, District-Purnea	Communist Party of India (Marxist- Leninist) (Liberation)	Flag with three stars
7	Pramod Narayan Poddar	M.-105 Kankar Baagh, Doctor Colony, Lohiya Nagar, Gaurishankar Complex, P.O.-Lohiya Nagar, Dist.-Patna	Bhartiya Jantantrik Jantadal	Kite
8	Fagu Marandi	At.+P.O.-Pauakhali, P.S.-Pauakhali, Dist.-Kishanganj	Jharkhand Disom Party	Cup & Saucer
9	Mansur Alam	At.-Dalan Haajipur, P.O.-Katihar Cort, Dist.-Katihar	Samajwadi Party	Bicycle
10	Md. Shamsher Aalam	At.-Bhameth, P.O.-Shripur, P.S.-Bhawanipur, Dist.-Purnea	Jharkhand Mukti Morcha Party	Bow & Arrow
11	MD Shahid Akthar	Aashiyana Colony, Khajanchi Haat, P.O.-Bhattha Bazar, P.S.-K.Haat, Dist.-Purnea	Bahujan Mukti Party	Cot
12	Syed Shah Ekbal Alam	House no. 17 At.- Itahari, P.O.- Kuarigola, P.S.-Dhamdaha, Dist.-Purnea	Bhartiya Ekta Manch Party	Battery Torch
13	Sudeep Roy	Sipahitola, P.O.- Purnea (Madhubani), P.S.-K.Haat, Dist.-Purnea	Aam Admi Party	Broom

(3) Other candidates				
14	Md Akthar Ali	Mohlla-Mujaffar Ahmed Nagar, P.O.- Purnea, P.S.-Kajanchi Haat (Sahayak), Dist.-Purnea 854301	Independent	<i>Envelope</i>
15	Kunj Bihari Paswan	At.-Chandrahi, P.O.-Chandrahi, P.S.-Dhamdaha, Dist.-Purnea	Independent	<i>Balloon</i>
16	Nawlesh Pathak	At.-Bhatottar, Po-Bhatottar Dist.-Purnea	Independent	<i>Almirah</i>
17	Sanjay Singh	Ranibari Damka, P.O.-Mohan Kunda, P.S.-Sadar, Dist.-Purnea	Independent	<i>Cake</i>

Place :- Purnea
Date - 09-04-2014

Returning Officer,
12-Purnea Parliamentary Constituency.

प्ररूप 7 क

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

26-भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4	5
(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी				
1	अबु कैसर	मोहल्ला-मउआर लेन, डाकघर-महेन्द्र एस0ओ0, थाना-सुल्तानगंज जिला-पटना, 800006	जनता दल (यूनाइटेड)	तीर
2	नौशाबा खानम	जब्बारचक, थाना-तातारपुर, जिला-भागलपुर	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3	शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल	ग्राम-राघोपुर, पो0-खरीक बाजार एस0ओ0 थाना परबत्ता, अनुमंडल नवगछिया जिला- भागलपुर	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
4	सैयद शाहनवाज हुसैन	मकान सं०-76, वार्ड नं०-20, सुपौल, जिला-सुपौल बिहार-852131, वर्तमान पता- शीला भवन, शितला स्थान रोड, तिलकामाँझी, भागलपुर बिहार -812001	भारतीय जनता पार्टी	कमल

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)				
5	कुमकुम सिंह	नया टोला भीखनपुर (गुमटी नं०-1), जी०एन०मुखर्जी रोड, भागलपुर	भारत विकास मोर्चा	फलों से युक्त टोकरी
6	गौरव कुमार घोष	ग्राम-भुड़िया पो०+थाना-सन्हौला, जिला-भागलपुर, बिहार	नेशनल टाइगर पार्टी	कोट
7	निशि कान्त मंडल	ग्राम एवं पत्रालय -किसनदासपुर, थाना-बुद्धचक, प्रखंडांचल-कहलगांव, जिला-भागलपुर 813222	बहुजन मुक्ति पार्टी	चारपाई
8	पुरुषोत्तम चौबे	ए०-67, राम प्रस्थ कॉलोनी लिंक रोड गाजियाबाद पो०-चन्दर नगर, थाना-लिंक रोड, जिला-गाजियाबाद (उ०प्र०)	समाजवादी पार्टी	साइकिल
9	प्रो. योगेन्द्र महतो	6ए. टी. एन. बी. कॉलेज कैम्पस भागलपुर 812007	आम आदमी पार्टी	झाड़ू
10	रिंकी कुमारी	गणेशपुर, खरीक, जिला-भागलपुर, 853202	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	तीन सितारों वाला झंडा
11	वीरेन दास	मो०-जबारीपुर, पोस्ट+ थाना-तिलकामाँझी जिला- भागलपुर पिन नं०- 812001	संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी	कप और प्लेट
(iii) अन्य अभ्यर्थी :-				
12	आनन्द कुमार जैन	के.वी. लाल रोड, नाथनगर चौक, भागलपुर	निर्दलीय	पतंग
13	इन्द्रदेव कुमार सिंह	गृह सं०-31, ग्राम-रहमतपुर, डाकघर व थाना-असरगंज जिला- मुंगेर, (बिहार), 813201 वर्तमान पता- निकट मुख्तार खाना, सिविल कोर्ट गेट के सामने, सिविल कोर्ट हाता भागलपुर, जिला-भागलपुर (बिहार) 812002	निर्दलीय	गैस सिलेण्डर
14	महादेव कुमार	ग्राम-पुन्नख पत्रालय- मुरहन हाट थाना-गोराडीह जिला- भागलपुर	निर्दलीय	गुब्बारा
15	रंजन कुमार	ग्राम-तिनटंगा करारी पत्रा. -तिनटंगा करारी थाना -गोपालपुर जिला- भागलपुर	निर्दलीय	स्टूल
16	रामजी मंडल	ग्राम+पो०-सिझौडी, थाना-सिकंदरा, जिला-जमुई (बिहार)	निर्दलीय	छत का पंखा
17	सिकन्दर ताँती	ग्राम-अमहारा, पो०-हरचंडी (रजौन), थाना-रजौन, जिला-बाँका	निर्दलीय	नारियल

18	सुमन कुमार	ग्राम-करहरिया दक्षिण भाग (खड़िया) अंचल-बरियारपुर, जिला-मुर्गैर, पिन-811211	निर्दलीय	काँच का गिलास
----	------------	--	----------	---------------

स्थान : भागलपुर
तारीख : 09.04.2014

रिटर्निंग ऑफिसर,
26- भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-
सह- जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर।

FORM 7A

[See rule 10(1)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

Election to the House of the people from the 26-Bhagalpur Parliamentary
Constituency

Sl. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5
(i) Candidates of recognised National and State Political Parties				
1	Abu Qaiser	Mohalla-Maur Lane, ward-50, P.O.- Mahendru (S.O.), P.S.-Sultanganj, Distt.-Patna (Bihar) 800006	Janata Dal (United)	Arrow
2	Naushaba Khanam	Jabbarchak, P.S.- Tatarpur, Distt.- Bhagalpur	Bahujan Samaj Party	Elephant
3	Shailesh Kumar Urph Bulu Mandal	Village-Raghopur, P.O.- Kharik Bazar S.O., P.S.- Parbatta, Subdivision- Naugachhia, Distt.- Bhagalpur	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
4	Syed Shahnawaz Hussain	R/o H.No. 76, Ward No. 20, Supaul, Distt.-Supaul, Bihar- 852131, Presently at Sheela Bhawan, Sitla Asthan Road, Tilkamanjhi, Bhagalpur, Bihar- 812001	Bharatiya Janata Party	Lotus

(ii) Candidates of registered Political Parties (Other than recognised National and State Political Parties)

5	Kumkum Singh	Naya Tola, Bhikhanpur, (Gumti No.-1), G.N. Mukherjee Road, Bhagalpur	Bharat Vikas Morcha	Basket Containing Fruits
6	Gaurav Kumar Ghosh	Village- Bhuriya, P.O. + P.S.-Sanhaura, District- Bhagalpur, Bihar	National Tiger Party	Coat
7	Nishi Kant Mandal	Vill.+P.O.- Kisandaspur, P.S.- Budhuchak, Block- Kahalgaon, Distt.- Bhagalpur	Bahujan Mukti Party	Cot
8	Purosottam Choubey	A-67, Ram Prastha Colony, Link Road, Ghaziabad (U.P.)	Samajwadi Party	Bicycle
9	Prof. Yogendra Mahto	6A, T.N.B. College Campus, Bhagalpur- 812007	Aam Aadmi Party	Broom
10	Rinki Kumari	Ganeshpur, Kharik, Distt.- Bhagalpur, 853202	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)	Flag with Three Stars
11	Viren Das	Mohalla-Jawaripur, P.O.+P.S.- Tilkamanjhi, District- Bhagalpur	Sankhyanupati Bhagidari Party	Cup & Saucer

(iii) Other Candidates

12	Anand Kumar Jain	K. V. Lal Road, Nathnagar Chowk, Bhagalpur	Independent	Kite
----	------------------	--	-------------	------

13	Indradeo Kumar Singh	House No.-31, Village- Rahmatpur, P.O.+P.S.- Asarganj, Distt.- Munger(Bihar)813201, Present Address-Near Mukhtar Khana, Opposite Civil Court Gate, Civil Court Campus, Bhagalpur, Distt.-Bhagalpur, 812002	Independent	Gas Cylinder
14	Mahadeo Kumar	Village-Punnakh, P.O.- Murhanhat, P.S.- Goradih, District- Bhagalpur	Independent	Balloon
15	Ranjan Kumar	Village+P.O.-Tintanga Karari, P.S.-Gopalpur, District-Bhagalpur	Independent	Stool
16	Ramjee Mandal	Village+P.O.- Sijhauri, P.S.-Sikandra, District -Jamui (Bihar)	Independent	Ceiling Fan
17	Sikandar Tanti	Village-Amhara, P.O.- Harchandi (Rajoun), P.S.-Rajoun, District- Banka	Independent	Coconut
18	Suman Kumar	Village- Karhariya South Part (Khadiya), Circle-Bariyarpur, District- Munger, PIN- 811211	Independent	Glass Tumbler

Place : Bhagalpur

Date : 09-04-2014

Returning Officer,
26-Bhagalpur Parliamentary Constituency .

प्ररूप 7क

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

27-बाँका संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4	5
(i) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी				
1	जय प्रकाश नारायण यादव	ग्राम+पोस्ट+थाना-बरहट टोला-सलैया जिला- जमुई	राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन
2	पुतुल कुमारी	ग्राम+पोस्ट- नयागाँव थाना- गिद्धौर भाया- गिद्धौर जिला- जमुई पिन- 811305	भारतीय जनता पार्टी	कमल
3	संजय कुमार - I	ग्राम+पोस्ट+थाना- धोरैया जिला- बाँका	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	बाल और हँसिया
4	संजय कुमार - II	ग्राम- लक्ष्मीपुर पोस्ट- रूपसा थाना- अमरपुर जिला- बाँका	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)				
5	उमाकान्त यादव	ग्राम - दुप्पाडीह पोस्ट + थाना - बौसी जिला - बाँका	बहुजन मुक्ति पार्टी	चारपाई
6	दीपक कुमार	ग्राम- दिग्धी, पोस्ट- शहजादपुर, थाना- नाथनगर, जिला - भागलपुर	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	काँच का गिलास
7	नीरज कुमार	ग्राम- बैदपुर पोस्ट+थाना- शंभूगंज जिला - बाँका	आम आदमी पार्टी	झाड़ू
8	महबूब आलम अंसारी	174, आनन्दपुरी पश्चिमी बोरिंग केनाल रोड, पटना, पोस्ट- जी0पी0ओ0- पटना, पिन- 800001	भारतीय मोमिन फ्रंट	अलमारी
9	मिथिलेश कुमार सिंह	ग्राम- गोविन्दपुर, पोस्ट- सुढ़ियारी, थाना- अमरपुर, जिला - बाँका	नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	छत का पंखा
10	मुकेश कुमार सिन्हा	ग्राम- झिकटिया, पोस्ट- किसनपुर अमखोरिया, थाना- सजौर, शाहकुण्ड, जिला- भागलपुर	भारतीय एकता मंच पार्टी	पतंग
11	विजय भारती	ग्राम+पोस्ट - पुनसिया, थाना- रजौन, जिला - बाँका	राजनैतिक विकल्प पार्टी	कैची
12	सुबोध नारायण झा	ग्राम+पोस्ट - बढौना, थाना- बाराहाट, जिला- बाँका	ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण
(iii) अन्य अभ्यर्थी				
13	अखिल भारतीय शर्मा	ग्राम- दिवाकर कित्ता, पोस्ट - पचरुखी, थाना- शाहकुण्ड, जिला - भागलपुर	निर्दलीय	ऑटो-रिक्शा
14	अलीमुद्दीन अंसारी	ग्राम- डहुआ, अंचल - बौसी, जिला - बाँका	निर्दलीय	बल्लेबाज

15	इन्द्रराज सिंह सैनी	59ए, कुसक नं०- 1, कादीपुर, पोस्ट- अलीपुर, थाना -स्वरूपनगर, दिल्ली, पिन- 110036	निर्दलीय	फलों से युक्त टोकरी
16	नरेश कुमार प्रियदर्शी	ग्राम+पोस्ट - चन्दाडीह, थाना - धोरैया, जिला - बाँका	निर्दलीय	आरी
17	सरगुन साह	ग्राम+पोस्ट - हसाय, थाना - धोरैया, जिला - बाँका	निर्दलीय	एअरकंडीशनर

स्थान : बाँका

तारीख : 09.04.2014

रिटर्निंग आफिसर,
27-बाँका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।**FORM 7A**

[See Rule 10(I)]

LIST OF CONTESTING CANDIDATES**Election to the House of the people from the 27-Banka Parliamentary Constituency**

Sl. No.	Name of Candidate	Address of Candidate	Party Affiliation	Symbol allotted
1	2	3	4	5
(i) Candidates of reconionised National and State Political Parties				
1	Jai Prakash Narayan Yadav	Vill+PO+P.s.- Barhat Tola- Salaiya Distt.- Jamui	Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp
2	Putul Kumari	Vill+PO- Naya Gawn PS- Giddhore (Via- Giddhore) Dist- Jamui 811305	Bharatiya Janata Party	Lotus
3	Sanjay Kumar - I	Vill+PO+P.S.- Dhoraiya Distt.- Banka	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle
4	Sanjay Kumar - II	Vill- Laxmipur PO- Rupsa P.S.- Amarpur Dist- Banka	Bahujan Samaj Party	Elephant
(ii) Candidates of Registered Political Parties (Other than recognized National and State Political Parties)				
5	Umakant Yadav	Vill- Tupadih PO +PS- Bounsi Distt.- Banka	Bahujan Mukti Party	Cot
6	Deepak Kumar	Vill- Dighi PO- Sahjadpur Thana- Nathnagar Distt.- Bhagalpur	Socialist Unity Centre of India (Communist)	Glass Tumbler
7	Niraj Kumar	Vill-Baidpur PO-PS.- Shambhuganj Distt.- Banka	Aam Aadmi Party	Broom
8	Mahboob Alam Ansari	174, Anandpuri West Boring Canal Road Patna. PO-GPO- Patna 800001	Bharatiya Momin Front	Almirah
9	Mithlesh Kumar Singh	Vill-Govindpur PO- Suriyari P.S.-Amarpur Distt.- Banka	National Loktantrik Party	Ceiling Fan

10	Mukesh Kumar Sinha	Vill-Jhiktia PO- Kishanpur Aamkhoriya P.S- Sajour- Sahkund Distt.- Bhagalpur	Bhartiya Ekta Manch Party	Kite
11	Vijay Bharti	Vill+Po-Punsiya P.S.- Rajoun Distt.- Banka	Rajnaitik Vikalp Party	Scissors
12	Subodh Narayan Jha	Vill+Po- Barhona P.S.- Barahat Distt.- Banka	All India Trinamool Congress	Flowers & Grass
(iii) Other Candidates				
13	Akhil Bhartiya Sharma	Vill-Diwakarkitta PO- Pachrukhi P.S.-Sahkund Distt.- Bhagalpur	Independent	Auto-Rickshaw
14	Alimuddin Ansari	Vill- Dahua Anchal- Bounsi Distt.-Banka	Independent	Batsman
15	Indraraj Singh Saini	59-A Kusak No. 1 Kadipur, Po-Alipur, P.S.- Sarupnagar Delhi- 110036	Independent	Basket Containing Fruits
16	Naresh Kumar Priyadarshi	Vill+Po.-Chandadih P.S.- Dhoraiya Dist- Banka	Independent	Saw
17	Sargun Sah	Vill+Po- Hasay P.S. – Dhoraiya Distt.- Banka	Independent	Air Conditioner

Place- Banka
Date- 09.04.2014

Returning Officer,
27- Banka Parliamentary Constituency.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 387-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>